

मेडिकल कार्ड का प्रारूप (नियमित कर्मचारियों के लिए)
FORMAT FOR MEDICAL CARD (Regular Employee)

नाम एवं ईआरपी आईडी Name & ERP ID (स्पष्ट अक्षरों में) (In Block letter)		Affix recent PP size photograph of individual.
कर्मचारी के साथ संबंध Relation with Employee		
जन्म तिथि / Date of Birth		
ब्लड ग्रुप /Blood Group		
आज की तारीख में मूल वेतन Basic Pay as on date		
स्थायी पता Permanent Address		
मोबाइल नंबर Mobile Number		